

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 मार्च 2024 — फाल्गुन 30, शक 1945

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 मार्च 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-38/2007/XII.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ (भौमिकी तथा खनिकर्म कार्यपालिक तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती) नियम, 2008 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-8 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ड.) का लोप किया जाये।
2. नियम-19 में, शब्द “दो” के स्थान पर शब्द “तीन” प्रतिस्थापित किया जाये।
3. अनुसूची तीन के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (6) में, शब्द “अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि” के स्थान पर, शब्द “अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार जैन, विशेष सचिव.

टीप:- छत्तीसगढ़ (भौमिकी तथा खनिकर्म कार्यपालिक तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती) नियम, 2008 को छत्तीसगढ़ राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ 1-38/2007/12, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 द्वारा जारी किया गया, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 26 नवम्बर, 2008 को किया गया। अधिसूचना क्रमांक एफ 1-38/2007/12, दिनांक 13 जनवरी, 2009 द्वारा जारी किया गया, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 30 जनवरी, 2009 को किया गया। अधिसूचना क्रमांक एफ 1-38/2007/12, दिनांक 16 मई, 2019 द्वारा उक्त नियम में अंतिम बार संशोधन किया गया, जिसका प्रकाशन दिनांक 31 मई, 2019 के राजपत्र में किया गया।

अटल नगर, दिनांक 13 मार्च 2024

क्रमांक एफ 1-38/2007/XII.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-38/2007/XII, दिनांक 13 मार्च, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार जैन, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 13th March 2024

NOTIFICATION

No. F 1-38/2007/XII.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh (Class III Executive, Geology and Mining Service Recruitment) Rule, 2008, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. Sub-clause (e) of clause (1) of Rule(8) shall be omitted.
2. In rule 19, for the words "two", the word "three" shall be substituted.
3. In column (6) of serial number 1 of Schedule-III, for the words "or diploma in Mining Engineering", the words "or Bachelor degree in Mining Engineering" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR JAIN, Special Secretary.

Note:- The Chhattisgarh (Class III Executive, Geology and Mining Service Recruitment) Rule, 2008, was issued on 13 October, 2008 and notified in the Chhattisgarh Rajpatra dated 26 November, 2008. The principal rules was lastly amended vide notification number F 1-38/2007/XII, dated 07 January, 2016, F 1-38/2007/XII, dated 13th January, 2009 and notified in the Chhattisgarh Rajpatra dated 30th January, 2009, F 1-38/2007/XII, dated 16th May, 2019 and notified in the Chhattisgarh Rajpatra dated 31st May, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR JAIN, Special Secretary.